

## आईटीआई लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा का अयोजन

आईटीआई लिमिटेड में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2018 तक सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्देशानुसार महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के बीच स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु निगमित कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। निगमित कार्यालय में, 16 नवंबर, 2018 को सभी कर्मचारियों को श्री के अलगेसन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मा.सं) और श्री टी कृष्णदास रै, अपर महाप्रबंधक – मा.सं एवं जनसंपर्क ने क्रमशः अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में शपथ दिलाए।



आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के अलगेसन, स्वच्छता शपथ दिलाते हुए।



आईटीआई लिमिटेड के निदेशक (मा.सं), श्री शशि प्रकाश गुप्ता, स्वच्छता शपथ दिलाते हुए।

स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के दौरान, आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय में विविध कार्यक्रमों को आयोजित किया गया जैसे 20 नवंबर, 2018 को महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में चर्चा, 23 नवंबर, 2018 को कार्यालय की सफाई एवं अवशिष्ट को निकालना, डिजिटल बोर्ड पर स्वच्छता पर वृत्तचित्र का प्रसारण और 26 नवंबर, 2018 को कैंटीन में स्वच्छता पर ऑडियो का प्रसारण किया गया ।

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय ने आईटीआई टाऊनशिप, बी क्षेत्र में 29 नवंबर, 2018 को



‘विशेष स्वच्छता’ अभियान भी आयोजित किया गया । इस अवसर पर, श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मा.सं) ने स्वच्छता और स्वस्थ परिवेश के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, “यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घरों को स्वच्छ रखें, परिसर में स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छ और हरे-भरे वातावरण को बनाए रखने में अपना योगदान दें । हम महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती को

मना रहें हैं और ‘राष्ट्रपिता’ महात्मा गाँधी, के सपने को पूरा करने के लिए, हम में से प्रत्येक को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत बनाने के लिए अपना योगदान देना होगा । आईटीआई टाऊनशिप क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए और भारत सरकार की ‘स्वच्छ भारत’ मिशन में योगदान देने हेतु हम सभी टाऊनशिप निवासियों से पूर्ण समर्थन की अपेक्षा करते हैं ।”



श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक (मा.स) ने आईटीआई टाऊनशिप, बी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया और इस कार्यक्रम में स्वच्छता के संदेश को उजागर करते हुए सभी से भारत को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया । सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।